

DAV PUBLIC SCHOOL, JAMALPUR
HOLIDAY HOMEWORK
SUMMER VACATION-2026

Class:- II

Sl No.	Subject	Homework/Assignment	Subject Teacher Name & Signature
1	ENGLISH	<ol style="list-style-type: none"> 1. Paste the picture of your school and write 10 lines about your school on the chart paper. 2. Draw and colour a cat on a chart paper and write the poem . 3. Learn new words from ch- 3 to 5. 4. Reading Homework –Read one page of your English book daily. .Read aloud with correct pronunciation. Learn and read 5 new words daily. 5. Make a tree of naming words . 	<p>Pranila Shikha Nidhi Singh Rajni Kumari</p>
2	HINDI	<ol style="list-style-type: none"> 1. पाठ 1 से पाठ 4 तक के प्रश्न उत्तर लिखो और याद करो। 2. सीखो कविता सुंदर अक्षरों में लिखो और याद करो। 3. अपना चित्र चार्ट पेपर पर चिपकाए और अपने बारे में 5 पंक्तिया लिखें। 4. Reading Homework –प्रतिदिन हिन्दी पुस्तक का एक पृष्ठ पढ़ें। शुद्ध उच्चारण के साथ जोर से पढ़ने का अभ्यास करें। रोज़ 5 नए शब्द पढ़ें और याद करें। 5. शब्दों एक गुलदस्ता बनायें। 	<p>Pranila Shikha Nidhi Singh Rajni Kumari</p>
3	MATHS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Write multiplication table from 2 to 10 in copy and learn them. 2. Make a model of an Abacus . 3. Activity- Make a " My daily addition diary " 	<p>Pranila Shikha</p>
4	EVS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Write and learn Question/Answer from ch-1 to 3. 2. Draw or paste pictures showing good habits such as: <ul style="list-style-type: none"> • Brushing teeth twice a day • Washing hands before meals • Taking a bath daily • Wearing clean clothes • Keeping nails trimmed • Covering mouth while coughing/sneezing <p>Write 1–2 lines about each habit. Decorate your work creatively.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. "Draw or paste pictures of food we get from plants and animals and write their names in two columns." 4. Paste or draw pictures of clothes worn in different seasons: <ul style="list-style-type: none"> • Summer season • Winter season • Rainy season <p>Write 2–3 lines about each type of clothing. Mention the fabric used in clothes such as cotton, wool, and silk. Decorate your work neatly and creatively</p>	<p>Pranila Nidhi Singh Rajni Kumari Shikha</p>
5	HEALTH & HYGIENE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Do one physical activity daily: Jumping/Running/Yoga/Skipping Make a 10-day exercise record with smiley stickers. 	<p>Nidhi Singh Rajni Kumari</p>

Pranila
CO-ORDINATOR

Deepmal
WING INCHARGE

Rajni
11/05/26
Principal